

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

महाविद्यालय का परिचय :-

राजकीय महिला महाविद्यालय फरीदाबाद का सन 1987 में महिला विंग के रूप में शुभारंभ हुआ तथा अक्टूबर 1992 में इसे एक स्वतंत्र राजकीय महिला महाविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तब से यह महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान में यह महाविद्यालय की शुभाकांक्षी, कर्मठ एवं प्रतिभासंपन्न प्राचार्या श्रीमती डॉ सुनिधि के कुशल निर्देशन में फरीदाबाद शहर में अपनी पहचान बना रहा है। आज इसकी गणना राज्य के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में की जाती है।

शिक्षा संकाय:-

महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के अतिरिक्त तीन जॉब ओरिएण्टेड कोर्सेज बीबीए, जर्नलिज्म एवं टूरिज्म की व्यवस्था है। वर्तमान सत्र में महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाली छात्राओं की कुल संख्या 1640 है। इसमें बीए में 632, बीएससी नॉन मेडिकल में 147, बीकॉम में 464 बीबीए में 183, जर्नलिज्म में 103 व टूरिज्म में 111 छात्राएं अध्ययनरत हैं।

शिक्षक वर्ग :-

इस समय महाविद्यालय में 21 स्थाई प्राध्यापक व 16 एक्सटेंशन लेक्चरर्स कार्यरत हैं, वर्तमान सत्र में डॉ सुनिधि ने 17/07/2021 को प्राचार्या के पद पर कार्यभार संभाला इसी सत्र में श्रीमती शीतल रानी समाज शास्त्र विषय में नव नियुक्त होकर ज्वाइन किया। डॉ विजय श्रीधर ने कंप्यूटर साइंस में राजकीय महाविद्यालय, फरीदाबाद से हमारे महाविद्यालय में स्थानांतरित होकर के आर्यी। कु० सोनिया संस्कृत विषय में नवनियुक्त 07/04/2022 को हमारे महाविद्यालय में ज्वाइन किया। 10/03/2022 को डॉ भैरवी संगीत वादन विभाग से स्थानांतरित होकर के राजकीय कन्या महाविद्यालय, गुल्हा चीका गयीं। 13/12/2021 को कु० अलका वर्मा असिस्टेंट के पद से Dy. Supdt. के पद पर पदोन्नत होकर राजकीय महाविद्यालय में स्थानांतरित होकर गयीं। 30/06/2021

को श्रीमती नम्रता शर्मा प्राचार्या के पद से सेवानिवृत्त हुईं। 31/12/2021 को श्री नीलू राम लैब अटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए।

कार्यालय कर्मचारी :-

वर्तमान में महाविद्यालय के कार्यालय में एक उप अधीक्षक, एक क्लर्क, एक तबला वादक, एक चपरासी स्थाई पद पर कार्यरत है, तथा तृतीय श्रेणी में 06 तथा चतुर्थ श्रेणी के 07 CONTRACTUAL कर्मचारी मौजूद हैं।

पुस्तकालय सूचना :-

पुस्तकालय में 12861 पुस्तकें हैं, पुस्तकालय में 09 समाचार पत्र आते हैं जिसमें 04 हिंदी व 04 अंग्रेजी तथा 01 रोजगार समाचार पत्र शामिल है इसके अलावा 09 मासिक पत्रिकाएँ भी आती हैं। पुस्तकालय कि 12861 सभी पुस्तकों का ऑटोमेशन भी हो चुका है। पुस्तकालय में 02 कंप्यूटर मौजूद हैं। पुस्तकालय में 02 ए.सी., प्रॉपर्टी काउंटर, बुक्स स्टैक्स, सर्कुलेशन काउंटर, आदि इसी वर्ष खरीदे गए।

यूनिवर्सिटी टोपर :-

महाविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग कि छात्राओं ने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय स्तर पर मेरिट सूची में टॉप 15 में से क्रमशः तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नौवा, बारहवां, चोदहवा, स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय द्वारा इन सभी छात्राओं को रोल ऑफ ऑनर एंड कॉलेज कलर सम्मान से नवाजा जा रहा है।

शारीरिक शिक्षा विभाग :-

हमारे महाविद्यालय की छात्रा उर्वशी भारद्वाज (बीए-2) की छात्रा ने बॉक्सिंग में विश्वविद्यालय स्तर पर गोल्ड मैडल तथा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में ब्रॉज मैडल तथा खेलो इंडिया में राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग में भाग लिया। पूजा सोरौत बीकॉम-1 कि छात्रा ने बॉक्सिंग में विश्वविद्यालय स्तर पर सिल्वर मैडल प्राप्त किया। रेनू बीए-2 कि छात्रा ने कराटें में विश्वविद्यालय स्तर पर

सिल्वर मैडल प्राप्त किया। पूज रानी बीए -3 कि छात्रा ने फुटबाल में राष्ट्रीय स्तर तथा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भाग लिया। संजना बीए-1 कि छात्रा ने बैडमिंटन में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में भाग लिया। सुनिता बीएससी-2 कि छात्रा ने तलवारबाजी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तथा खेलो इंडिया में भाग लिया। अंकिता बीएससी-3 कि छात्रा ने तलवारबाजी में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी तथा खेलो इंडिया में भाग लिया। मीरा बीए-3 कि छात्रा ने योगा में विश्वविद्यालय स्तर पर ब्रॉज मैडल तथा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय स्तर कि प्रतियोगिता में भाग लिया। तबस्सुम बीए-1, पिकी बीए-1, निशा बीए-2, मनीषा बी कॉम-2 ने योगा में विश्वविद्यालय स्तर पर ब्रॉज मैडल प्राप्त किया।

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) :-

राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा 22 जुलाई 2021 को पौधारोपण किया गया जिसमें लगभग 100 पौधे लगाये गए। महाविद्यालय में दो VACCINATION कैंप ईएसआई सेक्टर-8 के डॉक्टर्स के द्वारा लगाया गये, जिसमें लगभग 900 COVIDSHIELD वैक्सीन लगायीं गयीं। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ सुनिधि को इसी सत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना का 2 वर्ष के लिये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। इसी सत्र में राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉ रचना सैनी को विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी का पुरस्कार मिला। वहीं महाविद्यालय की NSS VOLUNTEER काजल सिंह को विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ NSS VOLUNTEER के पुरस्कार से नवाजा गया। शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षण विभाग द्वारा प्राचार्या डॉ सुनिधि एवम् एन एस एस कार्यक्रम अधिकारी डॉ रचना सैनी को 'बीट कोविड कैंपेन' के लिए प्रशंसा पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में विश्वस्तरीय NGO प्रथम फाउंडेशन के साथ एक MOU साईन किया जिसके तहत हमारे 24 स्वयंसेवको ने प्रथम फाउंडेशन के वार्षिक शोध असर-2021 में भाग लिया। एन एस एस स्वयंसेवक बिन्दू एवम् शिवांगी ने इस वर्ष राष्ट्रीय एकता शिविर जो कि क्रमशः एम डी यू रोहतक एवम् एस पी एस उड़ीसा में आयोजित तथा राज्य स्तरीय NSS कैंप जींद में भाग लिया। इस वर्ष 4 एन एस एस स्वयंसेवको ने YLTC एवम् 6 एन एस एस स्वयंसेवको ने विश्वविद्यालय स्तरीय कैंप में भाग

लिया। इस सत्र में एन एस एस इकाई द्वारा एक दिवसीय कैंप के अंतर्गत रक्तदान शिविर, नेत्रदान शिविर, श्रमदान, स्वच्छता पखवाडा पौधारोपण, मासिक धर्म स्वच्छता अभियान, सेनेटरी पैड वितरण, RUN FOR SAVE OIL AND SAVE SOIL, तम्बाकू निषेध शपथ आदि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है। स्पेशल सात दिवसीय कैंप 19 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 तक गाँव मिर्जापुर में लगाया गया।

सांस्कृतिक गतिविधियाँ :-

महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा जोनल यूथ फेस्टिवल (फरीदाबाद ज़ोन) में 31 प्रतियोगिताओं में भाग लिया जिसमें अंग्रेजी कविता में अनिका गोस्वामी ने प्रथम पुरुस्कार, पंजाबी कविता में गिरिशा ने प्रथम पुरुस्कार, हिंदी कविता में बिंदु ने द्वितीय पुरुस्कार, ग्रुप डांस (जनरल) में द्वितीय पुरुस्कार, हरियाणवी डांस (ग्रुप) में द्वितीय पुरुष्कार, रंगोली में अंजलि ने तृतीय पुरुस्कार प्राप्त किया, वहीं जिला स्तरीय युवा उत्सव जो कि 17 दिसम्बर 2021 को महाविद्यालय की छात्राओं ने हरियाणवी डांस (ग्रुप) में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव पंचकुला में जिला फरीदाबाद को हरियाणवी डांस का प्रतिनिधित्व करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में आयोजित अंतरक्षेत्रीय युवा महोत्सव में रंगोली प्रतियोगिता में अन्जली ने दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा अनिका गोस्वामी ने अंग्रेजी कविता में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

महाविद्यालय पत्रिका :-

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष कि भांति इस वर्ष भी अंकुरिता पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। अंकुरिता शीर्षक से प्रकाशित महाविद्यालय की पत्रिका उभरती प्रतिभाओं को अभिव्यक्ति का सुअवसर प्रदान करती है। इस पत्रिका में हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है।

पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग:-

विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के सेमिनार एवं वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें मीडिया शिक्षाविद एवम् मीडिया बुद्धिजीवियों ने विद्यार्थियों को अपने अनुभवों से लाभान्वित किया एवम् उन्हें मीडिया उद्योग के गुर सिखाये। महिला प्रकोष्ठ के सहयोग से फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मीडिया विद्यार्थियों के लिए जनसंपर्क में रोजगार के अवसर पर व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसमें जिला जनसंपर्क अधिकारों राकेश गौतम ने जनसम्पर्क के क्षेत्र में चुनौतियों एवम् अवसर पर चर्चा की। मीडिया के विद्यार्थियों ने इस वर्ष वाईऍमसीए में समाचार पत्र प्रदर्शनी, डी० ए० वी० कॉलेज में डाक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग कार्यशाला एवम् एन जी एफ कॉलेज के सामुदायिक रेडिया का भ्रमण किया।

भूगोल विभाग :-

18 नवम्बर 2021 को भूगोल विभाग द्वारा महाविद्यालय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राजकीय महाविद्यालय पलवल में आयोजित अंतर जिला विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता के छात्राओं ने भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय खेड़ी गुजरान में आयोजित अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्रा अंजलि BA-1 पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा भाषण प्रतियोगिता में भावना BA-1 की छात्रा ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। राजकीय महिला महाविद्यालय में भुगोल विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मधुबनी पेंटिंग प्रतियोगिता में महाविद्यालय द्वारा रश्मि सोलंकी बी.कॉम 3 की छात्रा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया।

संगीत विभाग :-

हमारे महाविद्यालय की छात्राओं ने (जोनल यूथ फेस्टिवल) क्षेत्रीय युवा महोत्सव में विभिन्न सात विद्याओं में हिस्सा लिया। संगीत विभाग द्वारा महिला दिवस के अवसर पर शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। के० एल० मेहता दयानंद महिला महाविद्यालय फरीदाबाद में आयोजित अंतर महाविद्यालय एकल गायन संगीत प्रतियोगिता में हमारे महाविद्यालय की छात्रा बिन्दू BA-3 एवं शबा अहमद BA-2 ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

हिंदी विभाग :-

14 सितम्बर 2021 को महाविद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। जिसमें महाविद्यालय स्तर पर निबन्ध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय युवा महोत्सव में हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में BA-3 की छात्रा बिन्दु ने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया तथा अंतर क्षेत्रीय युवा महोत्सव म० द० वि० रोहतक में हिस्सा लिया। हिंदी विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर की कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें महाविद्यालय की BAJMC की छात्रा गौरी सिंह को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

कंप्यूटर विभाग :-

हमारे महाविद्यालय के कंप्यूटर विभाग द्वारा महाविद्यालय स्तर पर PowerPoint Presentation प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कंप्यूटर विभाग द्वारा स्तर राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें हमारे महाविद्यालय की छात्रा सपना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

मनोविज्ञान एवं गृह विज्ञान :-

हमारे महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा चार दिन अंतर विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मनोविज्ञान तथा गृह विज्ञान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तरीय पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राजकीय महाविद्यालय पलवल में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में मनोविज्ञान की छात्रा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। गृह विज्ञान की छात्रा अंजलि ने क्षेत्रीय युवा महोत्सव में रंगोली प्रतियोगिता में तीसरा स्थान तथा अन्तर क्षेत्रीय युवा महोत्सव रोहतक में दूसरा स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया।

अर्थशास्त्र विभाग :-

हमारे महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग ने वित्तीय जागरूकता विषय पर विभिन्न सेमिनार तथा वेबिनर करवाये। 22 अप्रैल 2022 राष्ट्रीय स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

रेड क्रॉस एवं अंग्रेजी विभाग :-

हमारे महाविद्यालय की रेड क्रॉस विभाग द्वारा शिक्षक दिवस के उपलब्ध में पौधा रोपण किया गया। इसके अलावा विभिन्न गतिविधियाँ जैसे स्वच्छता पखवाडा, कार फ्री DAY मनाया। ECO CLUB तथा NSS के तत्वाधार में 1 MAY 2022 को मैराथन का आयोजन किया गया। 27 MAY 2022 को महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 67 यूनिट रक्त लिया गया। बीए-3 की छात्रा अनिका ने क्षेत्रीय युवा उत्सव में अंग्रेजी कविता में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा अंतर क्षेत्रीय युवा महोत्सव एम डी यू रोहतक में अंग्रेजी कविता में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

पर्यटन विभाग :-

हमारे महाविद्यालय के टूरिज्म विभाग ने विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष में वेबिनर का आयोजन कराया गया इसके अलावा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा 25 जनवरी 2022 राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। इसी विभाग द्वारा COLLAGE MAKING प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारे महाविद्यालय की छात्रा सपने ने इसी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

लीगल लिटरेसी सेल :-

हमारे महाविद्यालय की लीगल लिटरेसी सेल द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएँ जैसे निबन्ध लेखन, स्लोगन, पेंटिंग, डिबेट, भाषण, कविता पाठ प्रतियोगिता तथा स्किट कम्पटीशन आदि प्रतियोगिताओं का सफलपूर्वक आयोजन किया गया।

प्लेसमेंट सैल, कॉमर्स एवम् प्रबंधन विभाग :-

हमारे महाविद्यालय के कॉमर्स एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ द्वारा करियर कोउन्सल्लिंग सम्बन्धी विभिन्न सेमिनार एवं वेबिनार कराये गए। जैसे जी० जी० एस० इंडिया, वित्तीय जागरूकता एवं उपभोक्ता प्रशिक्षण, अच्छी नौकरी की सम्मानता हेतु, वित्तीय साक्षरता, नए एवं पुराने कर प्रशासन एवं आयकर की गणना हेतु, कानून एवं महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित अवसर हाल के रुझान में प्रबंधन एवं प्रबंध से सम्बंधित विभिन्न विभागों के साथ अनुशासनात्मक चार दिन की कार्यशाला का आयोजन किया, RESUME बनाने हेतु कार्यशाला, दिखावटी साक्षात्कार (MOCK INTERVIEW) अंतः संवाद सत्र का आयोजन किया गया जिसमें किसान की ऑनलाइन दुकान के बारे में जानकारी प्राप्त करवाई गयी।

विज्ञान विभाग :-

हमारे महाविद्यालय की विज्ञान विभाग की छात्रा हिमांशी वर्मा ने ओलिंपियाड में हिस्सा लिया। बी एस सी फाइनल की छात्रा मीनू चक्रवर्ती ने राज्यस्तरीय हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में के० एल० मेहता दयानंद कॉलेज फरीदाबाद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विज्ञान विभाग द्वारा विभिन्न वेबिनार तथा सेमिनार का आयोजन करवाया। राज्यस्तरीय स्लोगन लेखन, निबन्ध लेखन जैसे कई प्रतियोगिताएँ करवाई गईं। महाविद्यालय की बी एस सी की तीन छात्राएं, निशा, प्रियंका, सोनी सारस्वत ने नेहरु कॉलेज फरीदाबाद में आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के पश्चात क्षेत्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई। प्रियंका और अंकिता ने अंतर जिला विज्ञान प्रदर्शनी जो कि राजकीय महिला महाविद्यालय पलवल में आयोजित में तीसरा स्थान प्राप्त किया। पारुल शुक्ला ने डॉ अरुणा आशिफ अली पी० जी० कॉलेज कालका पंचकुला में आयोजित राज्यस्तरीय गठितीय पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

अनुदान प्राप्ति :-

वर्तमान सत्र में हरियाणा सरकार से महाविद्यालय को निम्नलिखित अनुदान राशियां प्राप्त हुई हैं :

पुस्तकालय के लिए	6,50,000
खेल कूद के लिए	50,000
प्लेसमेंट सैल के लिए	34,000
महिला पकोष्ठ के लिए	70,000
अर्न वाइल लर्न के लिए	81,600
प्रयोगशालाओं कि गुणवत्ता सुधार के लिए	90,000

आभार ज्ञापन :-

मैं आज के मुख्य अतिथि मिस कृष्णा श्योरान, प्राचार्या श्रीमति सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय बल्लबगढ़ फरीदाबाद का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अनेक व्यस्तताओं के होते हुए भी महाविद्यालय परिवार के अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ आकर हमें अनुग्रहित किया। मैं मीडिया जगत के फरीदाबाद प्रभारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती हूँ जो सकारात्मक

दृष्टी रखते हुए समय - समय पर महाविद्यालय के समाचार प्रकाशित करते हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने अपने शुभ आगमन से इस समारोह कि शोभा को बढ़ाया।

मैं अपने समस्त सहयोगी प्राध्यापको, कार्यालय के कर्मचारियों, पुस्तकालय सहायको, प्रयोगशाला के सहायको तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की धन्यवादी हूँ। इनके अथक प्रयासों से इस महाविद्यालय में अनेक नए कार्य तेजी से संपन्न हुए हैं। जिससे महाविद्यालय में अभूतपूर्व सुधर आया है। मैं महाविद्यालय की छात्राओं के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जिन्होंने महाविद्यालय के अनुशासित रहकर वर्ष भर शैक्षणिक वातावरण बनाए रखा। मैं वार्षिक रिपोर्ट बनाने वाली कमेटी में डॉ रमन कुमार तथा मीनल सभरवाल का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से यह रिपोर्ट तैयार की।

अंत में मैं एक बार फिर से मुख्यअतिथि का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ । जिन्होंने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला।

प्राचार्या

राजकीय महिला महाविद्यालय

फरीदाबाद

दिनांक: 30/06/2022